



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 411]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 15, 1972/भाद्र 24, 1894

No. 411]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 15, 1972/BHADRA 24, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September 1972

S.O. 599(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture) No. S.O. 557(E), dated the 18th August, 1972 the Central Government hereby directs that the powers conferred, on it by section 3 of the said Act to make orders under clauses (c), (d), (f), (h), (i) and (j) of sub-section (2) of that section shall, in relation to the cattle fodder of any of the varieties specified in the Schedule hereto annexed, be exercisable also by the Collectors of Ahmedabad, Amreli, Kutch, Kaira, Gandhinagar, Jamnagar, Junagadh, Dangs, Panchmahals, Banaskantha, Broach, Bhavnagar, Mehsana, Rajkot, Baroda, Bulsar, Sabarkantha, Surat and Surendranagar districts of Gujarat State in their respective districts.

This order shall come into force on the date of its publication in the Gazette of India and shall remain in force upto and inclusive of the 31st January, 1973.

### THE SCHEDULE

Varieties of Cattle Fodder

- (i) Hay.
- (ii) Grass.
- (iii) Chara.
- (iv) Kadabi.
- (v) Karab or Karabi.
- (vi) Bhusa.
- (vii) Paddy straw.

[No. 24-4/72-L.D. III]

V. K. MALIK,

Director (A.H.&amp;S.F.).



## कृषि मंत्रालय

## (कृषि विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1972

का० आ० 599(अ).—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 557 (इ०), तारीख 18 अगस्त, 1972 को अतिष्ठित करते हुये, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा, उस धारा की उपधारा (2) के खण्ड (ग), (घ), (च), (ज), (झ) और (झा) के अधीन आदेश देने के लिये, उमको प्रदत्त शक्तियाँ इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी किस्म के पशुचारे के सम्बन्ध में, गुजरात राज्य के अहमदाबाद, अमरेली, कच्छ, कैंग, गांधीनगर, जामनगर, जूनागढ़, डंग, पंचमहल, बनामकांठा, भड़ौच, भावनगर, मेहसाना, राजकोट, बड़ौदा, बुलशर, सबरकांठा, सूरत और सुरेन्द्रनगर जिलों के कलक्टरों द्वारा भी अपने-अपने जिलों में प्रयोक्तव्य होंगी।

यह आदेश भारत के राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा और 31 जनवरी, 1973 तक, जिसमें यह सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगा।

पशुचारे की किस्में :—

- (i) सूखी घास।
- (ii) घास।
- (iii) चारा।
- (iv) कड़वी।
- (v) कर्व या कर्वी।
- (vi) भूसा।
- (vii) धान का पुआल।

[सं० 24-4/72-एल० डी० III]

वि० कु० मलिक,

निदेशक (ए० एच० और एस० एफ०)।